



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2—जुलाई 8, 2011 (आषाढ़ 11, 1933)  
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 2—JULY 8, 2011 (ASADHA 11, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई-400021, दिनांक 24 जून 2011

सूचना

दिनांक 03 जून 2011 की सूचना के संदर्भ में, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 19(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के लिए चार निदेशकों के रिक्त स्थानों के लिए वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों के नाम और पते दिये गये हैं, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 24 जून 2011 को बैंक ऑडिटोरियम, स्टेट बैंक भवन कॉम्प्लेक्स, मादाम कामा रोड, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में आयोजित शेयरधारकों की साधारण सभा में सम्पन्न हुए चुनाव में निम्नलिखित उम्मीदवारों को बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के लिए शेयरधारकों के निदेशकों के रूप में यथाविधि निर्वाचित घोषित किया गया है :--

- |   |  |
|---|--|
| (i) श्री दिलीप सी. चौकसी<br>ई-7, सी फेस पार्क,<br>50-भूलाभाई देसाई रोड,<br>मुंबई-400026                           | (iii) श्री डी. सुंदरम<br>1901, टावर-ए, ब्यूमोंण्ड,<br>अप्पासाहेब मराठे मार्ग,<br>प्रभादेवी, मुंबई-400025 |
| (ii) श्री एस. वैकटचलम<br>बिल्डिंग बी-1, फ्लैट 1-डी,<br>हार्बर हाईट्स, एन. ए. सावंत मार्ग,<br>कोलाबा, मुंबई-400005 | (iv) श्री पार्थसारथी अय्यंगार<br>133, नेशनल सोसाइटी,<br>बानेर रोड, औध,<br>पुणे-411007                    |

हेमंत जी. काट्रेक्टर

प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)

## यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

मुंबई.400021, दिनांक 25 मई 2011

एस. ओ.--बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19, जो धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित है, के अधीन प्रत्यायोजित अधिकारों के प्रयोग में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के बाद केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन किया है, यथा :--

1. (1) ये विनियमन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियमन 2010 कहे जाएंगे।
- (2) सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से ही यह प्रभाव में आएंगे।
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 (इसके आगे कथित विनियमन नाम से संदर्भित) के विनियम 2 में खंड (ओ) के उप खंड (सी) में निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :--  
 “(सी) पुत्र या पुत्री जिसमें विधवा या तलाकशुदा पुत्री शामिल है, जब तक वे पच्चीस साल के होते हैं या विवाह या पुनर्विवाह कर लेते हैं जो भी पहले हो, और इसमें विधिक रूप से दत्तक पुत्र या पुत्री भी शामिल हैं।”
3. कथित विनियमनों में उप विनियम (3) के बाद विनियम 8 में निम्नलिखित उप-विनियम लगा दिया जाएगा यथा :--  
 “(4) न्यासी की नियुक्ति की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी तथा बैंक ऐसे न्यासी को भी पुनः नियुक्त कर सकता है जिन्होंने अपनी सेवावधि की पूर्ति कर ली है, बशर्ते कि किसी भी न्यासी को दो सेवाकाल से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाए।”
4. कथित विनियमनों में, विनियम 9 में निम्नलिखित परंतुक को लगा दिया जाएगा, यथा  
 “बशर्ते कि ऐसे सभी निर्देश लिखित रूप में दिये जाएंगे और प्रयोजन या उद्देश्य को विनिर्दिष्ट करेंगे।”
5. कथित विनियमनों में, विनियम 10 के उप विनियम (2) में प्रारंभिक अंश में “प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक सौ अस्सी दिनों के अंदर” की जगह में “बैंक के तुलन पत्र के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों के अंदर” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

डी. के. जैन  
महा प्रबंधक (कार्मिक)

फुट नोट :-- मूल विनियमन, भारत के राजपत्र में 29.09.1995 को प्रकाशित किये गये थे तथा उसके पश्चात् किये गये संशोधन

निम्नलिखित अधिसूचना संख्या में निम्नानुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये :--

अधिसूचना संख्या	दिनांक
--	02.01.1999
3	22.05.2002
4	31.12.2002

## राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 2011

सं. 49-3/2011/राअशिप/मा. तथा मा. (भाग)--राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) के खण्ड 32 के उप खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्न विनियम बनाती है नामतः :--

1. ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के मानक, तथा क्रियाविधि चतुर्थ संशोधन) विनियम 2011 कहलाएंगे।
2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 के विनियम 8 के उप-विनियम (5) में,  
 (क) शब्द अंक और अक्षर '1 अप्रैल, 2011' के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर '1 अप्रैल, 2012' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।  
 (ख) शब्द और अंक 'सत्र 2010-2011' के स्थान पर शब्द और अंक 'सत्र 2012-2013' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

आर. पी. सिसोदिया  
सदस्य सचिव

टिप्पणी :--मूल विनियम दिनांक 31 अगस्त, 2009 फा. सं. 51-1/2009-राअशिप (मा. तथा मा.) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खण्ड 4 में प्रकाशित किए गए थे तथा दिनांक 30 मार्च, 2010 को फा. संख्या 48-3(1)/2008/राअशिप (मा. तथा मा.) के रूप में संशोधित किए गए थे।

## STATE BANK OF INDIA

Mumbai-400021, the 24th June 2011

## NOTICE

With reference to the Notice dated the 3rd June 2011 containing the names and addresses of the candidates with valid nominations contesting the election for four vacancies of the Directors on the Central Board of the Bank under the provisions of Section 19(c) of the State Bank of India Act, 1955, notice is hereby given that the following candidates have been duly declared elected as Shareholder Directors on the Bank's Central Board in the election held at the General Meeting of the Shareholders of the Bank on the 24th June 2011 in the Bank's Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madarhe Cama Road, Mumbai-400021 (Maharashtra).

- (i) Shri Dileep C. Choksi  
E-7, Sea Face Park,  
50-Bhulabhai Desai Road,  
Mumbai-400026
- (ii) Shri S. Venkatachalam  
Building B-1, Flat 1-D  
Harbour Hights,  
N.A. Sawant Marg,  
Colaba, Mumbai-400005
- (iii) Shri D. Sundram  
1901, Tower-A, Beaumonde,  
Appasaheb Marathe Marg,  
Prabhadevi, Mumbai-400025
- (iv) Shri Parthasarthy Iyengar  
133, National Society,  
Baner Road, Aundh,  
Pune-411007

HEMANT G. CONTRACTOR  
Managing Dir. & Group  
Executive (IB)

## UNION BANK OF INDIA

Mumbai-400021, the 25th May 2011

S. O. —In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Union Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Government, hereby makes the following regulations further to amend the Union Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995, namely :—

1. (1) These regulation may be called the Union Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2010.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995, (hereinafter referred as the said regulation), in regulation 2, in clause (o), for sub-clause (c), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(c) son or daughter including widow or divorced daughter till he or she attains the age of twenty five years or upto his or her marriage or remarriage, which ever is earlier including such son or daughter adopted legally;"

3. In the said regulations, in regulation 8 after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted namely :—

"(4) The term of appointment of trustee shall be for a period of three years and the Bank may re-appoint a trustee who has already completed his term; provided that no trustee shall be appointed for more than two terms."

4. In the said regulations, in regulation 9, the following proviso shall be inserted, namely :—

"provided that all such direction shall be given in writing and shall specify the purpose or objective."

5. In the said Regulations, regulation 10, in sub-regulation (2), in the opening portion, for the words "Within one hundred and eighty days from the closing of each financial year", the words "Within sixty days from the date of publication of the Balance Sheet of the Bank" shall be substituted.

D. K. JAIN  
General Manager (P)

Footnote :—The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 29.09.1995 and subsequent amendments were published in the Gazette of India as under :—

Notification No.	Date
—	02.01.1999
3	22.05.2002
4	31.12.2002

## NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

New Delhi, the 3rd June 2011

No. 49-3/2011/NCTE/N&S—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National

Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulation further to amend the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, namely :—

1. These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure Fourth Amendment) Regulation, 2011.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulation, 2009, in regulation 8, in sub-regulation (5).—

- (a) For the words, figures and letters "the 1st day of April, 2011", the words, figures and letters "the 1st day of April 2012" shall be substituted;
- (b) For words and figures "Session 2010-2011", the words and figures "Session 2012-2013" shall be substituted.

R. P. SOSODIA  
Member Secy.

Note :— The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, vide Number F. 51-1/2009-NCTE (N&S), dated the 31st August, 2009 and were amended vide Number F. No. 48-3(1)/2008/NCTE (N&S) dated the 30th March, 2010.